

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.01.2021 को थाना रोहनियां पुलिस द्वारा गैंग बनाकर चोरी की घटनायें कारित करने वाले (1) रवि पटेल उर्फ बीरू (गैंग लीडर) पुत्र बलवंत पटेल निवासी भुल्लनपुर थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी उम्र 23 वर्ष, (2) लव कुमार पुत्र पारस राजभर निवासी भुल्लनपुर थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी उम्र लगभग 23 वर्ष व (3) अभिनन्दन पटेल पुत्र विजय पटेल निवासी भुल्लनपुर थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्ष के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत मु0अ0सं0 01/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

\*अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-\*

1.\*रवि पटेल उर्फ बीरू पुत्र बलवंत पटेल निवासी भुल्लनपुर थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी उम्र 23 वर्ष\*

1.मु0अ0सं0-0051/2020 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना रोहनियाँ वाराणसी

2.मु0अ0सं0-0066/2020 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना रोहनियाँ वाराणसी

3.मु0अ0सं0-0091/2020 धारा 307/457/380/411 भादवि थाना रोहनियाँ वाराणसी

4.मु0अ0सं0-0234/2020 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना रोहनियाँ वाराणसी

2 - \*लव कुमार पुत्र पारस राजभर निवासी भुल्लनपुर थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी उम्र 23 वर्ष\*

1.मु0अ0सं0-1025/2016 धारा 380 भा0द0वि0 थाना रोहनियाँ वाराणसी

2.मु0अ0सं0-288/2017 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना रोहनियाँ वाराणसी

3.मु0अ0सं0-0051/2020 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना रोहनियाँ वाराणसी

4.मु0अ0सं0-0066/2020 धारा 308/411 भा0द0वि0 थाना रोहनियाँ वाराणसी

5.मु0अ0सं0-0091/2020 धारा 307/457/380/411 भादवि थाना रोहनियाँ वाराणसी

6.मु0अ0सं0-0097/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रोहनियाँ वाराणसी

3 - \*अभिनन्दन पटेल पुत्र विजय पटेल निवासी भुल्लनपुर थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्ष\*

1.मु0अ0सं0-1025/2016 धारा 380 भा0द0वि0 थाना रोहनियाँ वाराणसी

2.मु0अ0सं0-0051/2020 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना रोहनियाँ वाराणसी

3.मु0अ0सं0-0066/2020 धारा 308/411 भा0द0वि0 थाना रोहनियाँ वाराणसी

4.मु0अ0सं0-0091/2020 धारा 307/457/380/411 भादवि थाना रोहनियाँ वाराणसी



संख्या: पीआरओ 02/2021

दिनांक: जनवरी, 01/2021

\*प्रेस नोट\*

दिनांक 01.01.2021 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर शिवांगी स्वीट्स की दुकान के पास (करवल बस्ती) से संजय पटेल पुत्र गौरीशंकर पटेल निवासी ग्राम कुसही थाना बड़ागाँव वाराणसी उम्र-30 वर्ष को समय करीब 09.20 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 01/2021 धारा-60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- संजय पटेल पुत्र गौरीशंकर पटेल निवासी ग्राम कुसही थाना बड़ागाँव वाराणसी उम्र-30 वर्ष

\*बरामदगी का विवरण-\*

- 10 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ0नि0 कुमार गौरव सिंह, का0 अजयभान गिरी व का0 रामदवर सरोज थाना-बड़ागाँव जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



संख्या: पीआरओ 03/2021

दिनांक: जनवरी, 01/2021

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 01.01.2021 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*10 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व कुल 15 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये \*कुल 264 व्यक्तियों से रु0-6300/- जुर्माना\* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 843 वाहनों का चालान, 03 वाहनों को सीज तथा 62 वाहनों से रु0-59,400/- समन शुल्क वसूल\* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

संख्या: पीआरओ 04/2021

दिनांक: जनवरी, 01/2021

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 134 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 9158 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 828 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 120 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 6117 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 75 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

